

भारत सरकार/Government of India
अंतरिक्ष विभाग/Department of Space
उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र/North Eastern Space Applications Centre
उमियम/Uiam-793103, मेघालय/Meghalaya

Tel: 0364-2308766
Email: library.nesac@nesac.gov.in

No. NESAC/LIB/SER/2026

जून /June 17th, 2026

संक्षिप्त निविदा सूचना/Short Tender Notice

निदेशक, एनईसैक, उमियम, मेघालय, भारत, निम्नलिखित कार्य हेतु प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं, फर्मों, ठेकेदारों आदि से मुहरबंद निविदाएँ/प्रस्ताव आमंत्रित करते हैं: /Director, NESAC, Umiam, Meghalaya, India invites sealed offers from reputed Service Providers, Firms, Contractors, etc for the following:

क्रम संख्या/ Sl. No.	कार्य का विवरण / Description of work	अखबारों के नाम / Name of the Newspapers	प्रति दिन आवश्यक मात्रा/ Quantity Required per day
1.	एनईसैक, उमियम, मेघालय में समाचार पत्रों की आपूर्ति /Supply of Newspapers at NESAC, Umiam, Meghalaya	A. अंग्रेज़ी अखबार /English newspaper 1. द शिलांग टाइम्स /The Shillong times 2. टाइम्स ऑफ़ इंडिया /Times of India	8 nos 9 nos
		B. हिंदी समाचार पत्र /Hindi News Paper 1. पूर्वांचल प्रहरी /Purvanchal Prahari 2. दैनिक पूर्वोदय /Dainik Purvoday	2 nos 3 nos
		C. स्थानीय समाचार पत्र /Local Newspaper 1. मावफोर/Mawphor 2. आमार असम /Amar Asom	1 nos 1 nos
		शनिवार, रविवार तथा अन्य अवकाश के दिनों सहित प्रतिदिन आपूर्ति किए जाने वाले कुल समाचार पत्रों की संख्या /Total number of Newspapers required to be supplied per day including Saturday, Sunday & Holiday.	24 nos

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.nesac.gov.in पर जाएँ।/For detail information kindly visit our website at www.nesac.gov.in

यदि कोई शुद्धिपत्र/अनुपूरक सूचना जारी की जाती है, तो उसका प्रकाशन केवल वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा।
/Corrigendum /Addendum if any will be published in the website only.

सीलबंद कोटेशन/टेंडर जमा करने की आखिरी तारीख 29 जून 2026 होगी।

/The last date for submission of sealed quotations/tenders will be on the 29th June 2026.

नियम और शर्तें/Terms and Conditions

1. एनईसैक को निम्नलिखित समाचार पत्रों की दैनिक आधार पर, शनिवार, रविवार तथा सभी राजपत्रित अवकाशों के दिनों सहित, प्रातः 9:30 बजे तक अनिवार्य रूप से आपूर्ति की जानी है। /NESAC requires the following newspaper on a daily basis including Saturdays, Sundays and all Gazetted holidays not later than 9:30 AM.

क्रम संख्या/ Sl. No.	कार्य का विवरण / Description of work	अखबारों के नाम / Name of the Newspapers	प्रति दिन आवश्यक मात्रा/ Quantity Required per day
1.	एनईसैक, उमियम, मेघालय में समाचार पत्रों की आपूर्ति /Supply of Newspapers at NESAC, Umiam, Meghalaya	A. अंग्रेज़ी अखबार /English newspaper	
		1. द शिलांग टाइम्स /The Shillong times	8 nos
		2. टाइम्स ऑफ़ इंडिया /Times of India	9 nos
		B. हिंदी समाचार पत्र /Hindi News Paper	
		1. पूर्वचल प्रहरी /Purvanchal Prahari	2 nos
		2. दैनिक पूर्वोदय /Dainik Purvoday	3 nos
		C. स्थानीय समाचार पत्र /Local Newspaper	
		1. मावफोर/Mawphor	1 nos
		2. आमार असम /Amar Asom	1 nos
शनिवार, रविवार तथा अन्य अवकाश के दिनों सहित प्रतिदिन आपूर्ति किए जाने वाले कुल समाचार पत्रों की संख्या /Total number of Newspapers required to be supplied per day including Saturday, Sunday & Holiday.			24 nos

2. बोलीदाता को समाचार पत्रों के एनईसैक तक परिवहन हेतु आवश्यक व्यवस्था स्वयं करनी होगी। जो बोलीदाता न्यूनतम दर (अर्थात अधिकतम छूट) प्रदान करेगा, उसे सफल बोलीदाता माना जाएगा। /The Bidder should make their own arrangement for transportation of the newspapers till NESAC; the Bidder who offers the lowest rate (highest discount) will be the successful bidder.
3. बोलीदाता द्वारा उद्धृत दरें अंतिम एवं बाध्यकारी होंगी। /The rates quoted by the Bidder shall be FINAL.
4. बोलीदाता द्वारा समाचार पत्रों की आपूर्ति के लिए प्रस्तुत की गई निविदा, निविदा सूचना खोले जाने की तिथि से 30 (तीस) दिनों

- की अवधि तक वैध एवं प्रभावी रहेगी। /The tender submitted by the Bidder for the supply of newspapers shall be valid for a period of 30 days from the date of opening of the Tender Notice.
5. पुस्तकालय प्रभारी को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वे बिना कोई कारण बताए किसी भी उद्धरण/प्रस्ताव को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार अथवा निरस्त कर सकें। /The Library-Incharge reserves the right to accept or reject any quotation fully or partly without assigning any reasons.
 6. निर्धारित समय-सीमा के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं/बोलियों को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। /Late Bidders will not be considered under any circumstances.
 7. निदेशक, एनईसैक को किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में कार्य को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। /The Director, NESAC reserves the right to cancel the work for any kind of dispute that may arise.
 8. समाचार पत्रों की आपूर्ति सीधे एनईसैक, उमियाम परिसर स्थित एनईसैक पुस्तकालय/स्वागत कक्ष (रिसेप्शन) में की जानी अनिवार्य होगी। /Delivery must be made directly to the NESAC Library/Reception at the NESAC Umiam campus.
 9. आपूर्ति किए जाने वाले समाचार पत्र अच्छी, स्वच्छ एवं पठनीय स्थिति में होने चाहिए। किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त, गंदे, फटे हुए अथवा पूर्व दिवस के संस्करणों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उन्हें बोलीदाता के स्वयं के व्यय पर तत्काल बदला जाना अनिवार्य होगा। /Papers must be in fresh, readable condition. Soiled, torn, or previous day's editions will be rejected and must be replaced immediately at the bidder's cost.
 10. बोलीदाताओं द्वारा अपनी दरें/उद्धरण इस निविदा के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाने अनिवार्य हैं। /Bidders should provide their quote in the tender form enclosed herewith.
 11. प्रकाशकों द्वारा अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में की जाने वाली किसी भी वृद्धि को मान्य किया जाएगा, इस शर्त के अधीन कि अनुबंध अवधि के दौरान बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया छूट प्रतिशत अपरिवर्तित रहेगा। /Any increase in MRP by the publishers will be honored, provided the quoted discount percentage remains constant throughout the contract.
 12. मासिक आधार पर बिल/चालान तीन प्रतियों में प्रस्तुत किए जाने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक बिल/चालान के साथ दैनिक आपूर्ति चालान अथवा पुस्तकालय प्रभारी द्वारा विधिवत प्रमाणित मासिक विवरण संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। /Invoices must be submitted on a monthly basis in triplicate, supported by daily delivery challans or a monthly summary certified by the Library-in-Charge.
 13. सही एवं पूर्ण रूप से प्रस्तुत बिल/चालान की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर भुगतान पीएफएमएस/आरटीजीएस के माध्यम से संसाधित किया जाएगा। /Payments will be processed via PFMS/RTGS within 30 days of receiving of correct invoice.
 14. सफल बोलीदाता को अनुबंध मूल्य की (सामान्यतः 3%) प्रदर्शन सुरक्षा राशि सावधि जमा रसीद (Fixed Deposit Receipt) अथवा बैंक गारंटी के रूप में जमा करनी होगी। /The successful bidder must deposit a Performance Security (typically 3% of the contract value) in the form of a Fixed Deposit Receipt or Bank Guarantee.
 15. किसी समाचार पत्र की आपूर्ति न होने की स्थिति में, एनईसैक को उसे बाहरी स्रोत से क्रय करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त क्रय की लागत संबंधित मासिक बिल से समायोजित/कटौती कर ली जाएगी। /If a newspaper is not delivered, NESAC reserves the right to purchase it externally and the cost will be deducted from the monthly bill.
 16. एक माह के दौरान तीन या उससे अधिक अवसरों पर विलंब से आपूर्ति अथवा समाचार पत्रों की आपूर्ति न किए जाने की स्थिति

- में अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा सकता है तथा जमा की गई सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी। /Three or more instances of late delivery or non-supply in a month may lead to the immediate termination of the contract and forfeiture of the security deposit.
17. अनुबंध की प्रारंभिक वैधता अवधि एक वर्ष होगी, जिसे पारस्परिक सहमति के आधार पर आगे दो वर्षों की अवधि तक विस्तारित किया जा सकता है। उक्त विस्तार केवल बोलीदाता के संतोषजनक सेवा निष्पादन के आधार पर ही प्रदान किया जाएगा।
/The contract is initially valid for one year, extendable for a further period of two years base on mutual consent. The extension can be extended only on satisfactory performance service of the bidder.
 18. दोनों में से कोई भी पक्ष 30 दिनों की पूर्व लिखित सूचना प्रदान करके अनुबंध समाप्त कर सकता है। तथापि, बोलीदाता द्वारा गंभीर लापरवाही किए जाने की स्थिति में एनईसैक को किसी भी समय अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।/Either bidder can terminate the contract by giving 30 days' written notice; however, NESAC reserves the right to terminate the contract at any point of time base on gross negligence on the part of the bidder.
 19. अनुबंध से संबंधित अथवा उससे उत्पन्न होने वाले सभी विवाद नोंगपोह स्थित सक्षम न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।
/Any disputes arising from the contract will be subject to the jurisdiction of the courts in Nongpoh.
 20. बोलीदाताओं द्वारा जीएसटी पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतियां अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जानी होंगी।
/Bidders must provide copies of their GST Registration and PAN Card.
 21. ऐसे बोलीदाताओं को वरीयता प्रदान की जा सकती है, जिनके पास सरकारी संगठनों अथवा स्वायत्त निकायों को समाचार पत्रों की आपूर्ति करने का कम से कम दो वर्षों का अनुभव हो। /Preference may be given to Bidder who have a minimum of two years of experience supplying newspapers to Government Organizations, Autonomous bodies.

बोलीदाताओं हेतु महत्वपूर्ण निर्देश /NOTE TO BIDDERS

1. किसी भी प्रकार की शर्तों के साथ प्रस्तुत की गई बोलियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। /Conditional bidders will not be considered.
2. उचित सत्यापन के अभाव में, बिना पूर्ण हस्ताक्षर वाली अथवा निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की मिटाई गई प्रविष्टि, काट-छांट, ओवरराइटिंग आदि वाली बोलियों को अमान्य माना जाएगा और उन पर विचार नहीं किया जाएगा।/Bidder received without proper attestation, without full signature or erasing, cutting, overwriting etc., in the tender form will not be considered.
3. नियत तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा।/Tender received after the due date and time will not be considered.
4. बोलीदाता द्वारा अपने उद्धरण में टीआईएन (Tax Identification Number) / पैन (Permanent Account Number) का विवरण अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना होगा। संबंधित दस्तावेज की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी आवश्यक है। / Please indicate TIN (Tax Index Number) / PAN (Permanent Account Number) in your quotation. Relevant copy of to be enclosed along with offer.
5. पैन संख्या/पैन कार्ड की प्रति के बिना प्राप्त निविदाएं अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होंगी।/Tenders received without PAN No./Card copy will be liable for rejection.

भारत सरकार/Government of India
अंतरिक्ष विभाग/Department of Space
उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र/North Eastern Space Applications Centre
उमियम/Uiam-793103, मेघालय/Meghalaya

Tel: 0364-2308766
Email: library.nesac@nesac.gov.in

निविदा प्रपत्र / TENDER FORM

द्वारा/From

.....
.....

सेवा मे/To,
पुस्तकालय प्रभारी/ library Incharge,
एनईसैक/NESAC, उमियाम/Uiam.

श्रीमान/Dear Sir,

मैं निम्नलिखित सामग्री/वस्तुओं के लिए अपनी दरें प्रस्तुत करने हेतु सहमत हूँ:-/I agree to quote the rate of the following materials:-

क्र.सं. /Sl. No.	कार्य का विवरण / Description of work	अखबारों के नाम /Name of the Newspapers	प्रति दिन आवश्यक मात्रा /Quantity Required per day	अखबार का अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) (₹)/Maximum Retail Price (MRP) of the Newspaper (₹)	रुपये में दी गई छूट (₹)/Discoun t offered in Rupees (₹)	अखबार की पेशकश की गई कीमत (₹ में)/Offered Price of the newspaper in rupees (₹)
1	एनईसैक, उमियम, मेघालय में समाचार पत्रों की आपूर्ति /Supply of Newspapers at NESAC, Uiam, Meghalaya	A. अंग्रेज़ी अखबार / English newspaper				
		1. द शिलॉन्ग टाइम्स/ The Shillong times	8 nos	₹	₹	₹
		2. टाइम्स ऑफ़ इंडिया/Times of India	9 nos	₹	₹	₹
		B. हिंदी समाचार पत्र /Hindi News Paper				
		1. पूर्वांचल प्रहरी /Purvanchal Prahari	2 nos	₹	₹	₹
		2. दैनिक पूर्वोदय /Dainik Purvoday	3 nos	₹	₹	₹

		D. स्थानीय समाचार पत्र /Local Newspaper				
		1. मावफोर/Mawphor	1 nos	₹	₹	₹
		2. आमार असम /Amar Asom	1 nos	₹	₹	₹
शनिवार, रविवार तथा अन्य अवकाश के दिनों सहित प्रतिदिन आपूर्ति किए जाने वाले कुल समाचार पत्रों की संख्या /Total number of Newspapers required to be supplied per day including Saturday, Sunday & Holiday.			24 nos			

मैं/हमने अनुबंध की सभी नियम एवं शर्तों तथा निविदा आमंत्रण सूचना के साथ संलग्न निविदाकर्ताओं हेतु निर्देशों को भली-भांति समझ लिया है। मैंने/हमने इसमें उल्लिखित विनिर्देशों/चित्रों एवं/अथवा नमूनों का पूर्ण रूप से परीक्षण कर लिया है तथा आवश्यक समाचार पत्रों की प्रकृति एवं आवश्यकताओं से पूर्णतः अवगत हूँ/हैं। मेरा/हमारा प्रस्ताव समाचार पत्रों की आपूर्ति निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप करने का है, जो इस निविदा की पूर्णतः अथवा आंशिक स्वीकृति की सूचना देने वाले क्रय आदेश में निहित नियम एवं शर्तों के अधीन होगा। / I/We have understood the terms and conditions of the contract and the instructions of tenderers annexed to the notice invitation to tender and have thoroughly examined the specification/drawing and/or pattern quoted or preferred to herein and/or fully aware of the nature of newspapers required and my/or offer is to supply the Newspapers strictly in accordance with the requirements subject to the terms and conditions contained in the purchase orders communicating the acceptance of this tender either in whole or in part.

दिनांक / Date:

निविदाकार के मुहर व हस्ताक्षर /
Seal and Signature of the Tenderer